

समाचार विज्ञप्ति

मंत्री मॉर्नो का पहला बजट मध्यम वर्ग के लिए आशा पुनर्स्थापित करता है

मार्च 22, 2016

ऑटोवा, ऑन्टेरियो

वित्त विभाग

वित्त मंत्री, बिल मॉर्नो, ने आज कॅनेडा की नई सरकार का पहला संघीय बजट पेश किया, *मध्यम वर्ग का विस्तार*, एक योजना जो कॅनेडा की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती है, और वास्तविक परिवर्तन प्रस्तुत करती है मध्यम वर्ग के लिए और उन लोगों के लिये जो उसमें सम्मिलित होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत मध्यम वर्ग के साथ शुरू होती है। यही कारण है कि इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो कॅनेडियन्स और उनके परिवारों के लिए काम करती हो।

बजट 2016 उन लोगों को तुरन्त सहायता प्रदान करता है जिन्हें उसकी अधिकतम आवश्यकता है, और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए नींव तैयार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन लोगों और मामलों पर सही रूप में ध्यान केंद्रित करता है जो उनके लिये अत्यधिक अर्थपूर्ण हैं - चीजें जैसे मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना, नौकरियां पैदा करना, और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना।

1 जनवरी से सरकार का मध्यम वर्ग कर-कटौती सुनिश्चित करता है कि लगभग 9 मिलियन कॅनेडियन्स को प्रत्येक वेतन-दिवस पर पहले से अधिक बड़ा वेतन-चैक प्राप्त हो।

आज, मंत्री मॉर्नो एक नये **कॅनेडा बाल लाभ** (चाइल्ड बैनिफिट) की प्रस्तुति द्वारा इस प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं - पहले से अधिक सरल, कर-मुक्त, अधिक उदार, लक्षित लाभ जो उनकी सहायता करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है - मध्यम वर्ग। जुलाई 2016 में शुरू करके, दस में से नौ परिवारों को पिछली सरकार के अधीन प्राप्त रकम की तुलना में और अधिक पैसे प्राप्त होंगे।

बजट 2016 एक नयी पध्दति का संकेत देता है जो रोजगारों का निर्माण करेगी और कॅनेडियन्स के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, आज और भविष्य में। इसमें सम्मिलित है अगले दशक में बुनियादी ढांचे पर कुल 120 बिलियन डॉलर से अधिक ऐतिहासिक नए निवेश।



एक तात्कालिक पहले कदम के रूप में, यह सरकार आधुनिक और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन, जल और व्यर्थ जल प्रणालियों, किफायती आवास में, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से वर्तमान परियोजनाओं की रक्षा और मरम्मत के लिए 11.9 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी।

अतिरिक्त दीर्घकालिक निवेश कॅनेडा को एक कम-कार्बन अर्थव्यवस्था बनने में सहायता करेगा, और अधिक जीवंत शहरों, डिजिटल-जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों का, और सुरक्षित, स्वस्थ, संपन्न समुदायों का निर्माण करेगा।

बजट 2016 छात्रों और माध्यमिक-उपरान्त संस्थाओं, दोनों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण नए निवेश प्रदान करता है, जिससे अगली कॅनेडाई पीढ़ी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो सके। इसके अतिरिक्त, यह सरकार, तेजी से स्थानांतरित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था में कॅनेडा का स्तर उत्तम बनाने के लिये, अनुसंधान को बढ़ावा देगी, व्यापार विकास में तेजी लाएगी, और स्वच्छ-प्रौद्योगिकी का समर्थन करेगी।

यह मानते हुए कि पर्यावरण की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में वृद्धि साथ-साथ चलते हैं, यह सरकार उन स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों में निवेश करेगी जो जलवायु परिवर्तन, हवा की गुणवत्ता, स्वच्छ जल, और स्वच्छ मिट्टी को संबोधित करती हैं। बजट 2016, इस सरकार के 2 बिलियन डॉलर कम-कार्बन अर्थनीति कोष स्थापित करने के ध्येय को भी दोहराता है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस विकास में सभी कॅनेडियन्स की साझेदारी है, बजट 2016 सभी कॅनेडियन्स को, वे चाहे कोई भी हों, या कहीं से भी आये हों, सफल होने के एक समान अवसर प्रदान करने के लिये नवीन कदम उठाता है। इसमें सम्मिलित है फर्स्ट नेशन्स, इनुइट लोग, और मेटिज़ नेशन्स में अभूतपूर्व निवेश - पाँच वर्षों के दौरान कुल 8.4 बिलियन डॉलर - उन क्षेत्रों में जिनमें सम्मिलित हैं शिक्षा, बुनियादी ढांचा, और कौशल्य प्रशिक्षण। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हरेक बच्चे को स्वच्छ जल उपलब्ध है जिसमें रिज़र्व में रहने वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं।

एक अधिक समावेशी और निष्पक्ष कॅनेडा में निवेश करने के प्रयासों में सम्मिलित हैं - स्वास्थ्य देखभाल में संघीय नेतृत्व प्रदान करना; वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित सेवानिवृत्ति के वचन को साकार करने में सहायता करना; कॅनेडा पेंशन प्लान को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराना; और कॅनेडा के दिग्गजों (वैटरन्स) के लिए हमारे पवित्र दायित्व को पूरा करना।

बजट 2016, विश्व मंच पर कॅनेडा के स्थान की पुनर्स्थापना के लिये भी कार्यरत है। यह सरकार अत्यधिक असुरक्षित के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करेगी, और 2016 में चिरस्थाई

वृद्धि को प्रोत्साहन देने और मध्यम वर्ग की वृद्धि के लिये 300,000 तक स्थाई निवासियों का स्वागत करेगी।

मध्यम वर्ग का विस्तार ऐसे समय आ रहा है जब कॅनेडा की सरकार कार्रवाई की क्षमता और इच्छा, दोनों ही रखती है। बजट 2016, मध्यम वर्ग और उन लोगों पर जो इसमें सम्मिलित होने के लिये कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उन पर ध्यान केन्द्रित करके अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये और सभी कॅनेडियन्स के लिये अवसर पैदा करने के कदम उठाता है।

उद्धरण

“पिछली पीढ़ियों में भविष्य के बारे में जो उम्मीद और आशावाद उपस्थित था उसे हमारी योजना पुनः वापिस लाएगी, और उसे अगली पीढ़ी के लिये कार्यान्वित करेगी। वास्तविक परिवर्तन मात्र आज या कल के बारे में नहीं है। वह तो आने वाले वर्षों और दशकों में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के बारे में है, ताकि वह मध्यम वर्ग के लिये काम करे और उनकी सहायता करे जो इसमें सम्मिलित होने को लिये कठिन परिश्रम कर रहे हैं।”

- बिल मॉर्नो, वित्त मंत्री

संबंधित उत्पाद

- बजट योजना
- बजट भाषण
- तथ्य पत्र
- जनवरी 2016 के लिये *आर्थिक निरीक्षण*

मीडिया संपर्क -

ऐनी डॉनलो (Annie Donolo)
प्रैस सचिव
वित्त मंत्री का दफ्तर
613-369-5696

जैक ऑब्री (Jack Aubry)
मीडिया सम्बन्ध
वित्त विभाग
613-369-4000

सभी समाचार विज्ञप्ति की ई-मेल द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये कृपया www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp पर रजिस्टर करें।